Date: 03.11.2020

To

Corporate Relationship Department

BSE Limited

1st Floor, Rotunda Building P.J Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001. To

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai- 400 051.

Dear Sir,

Subject: Newspaper Advertisement for Board Meeting scheduled to be held on Tuesday, November 10, 2020

Ref: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Scrip Code: BSE- 541700/Stock Symbol: NSE-TCNSBRANDS

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find herewith, enclosed copy of newspaper advertisement with respect to the Board Meeting scheduled to be held on Tuesday, November 10, 2020 published in the following newspapers:

- 1. Business Standard-English on November 03, 2020
- 2. Business Standard-Hindi on November 03, 2020

This is for your information and necessary records.

For TCNS Clothing Co. Limited

Piyush Asija
Company Secretary & Compliance Offic
M. No: A21328

Date: 03.11.2020 Place: New Delhi



Bike buyers upgrade to pricier models

Mumbai, 2 November

mid economic uncertainty and the Covid-19 pandemic, motorcycle buyers are responding enthusiastically to pricier variants (125cc and above), giving entry-level models a clear miss. This buying trend bumped up average realisations in the July-September quarter for most two-wheeler companies.

This is even as sales of motorcycles with an engine displacement of 100-110cc - categorised as entry level remained subdued in the three months till September over the corresponding period last year. Such bikes account for eight of the 10 models sold in the domestic market.

In September, for instance, sales of 125cc models — that include the Hero Glamour, Splendor, Pulsar 125, Victor Star City, among others — grew by a whopping 30 per cent over the same period a year ago to 305.615 units. Bikes with engine displacements between 125cc and 150cc showed similar traction. The overall sales of such bikes zoomed from 67,769 units to

"Compared with the entry-level segment, buyers of these models are

among first-time buyers to directly purchase a 125cc or 150cc model. This has led to brisk growth. It also comes on a low base," said Mitul Shah, head of research at Reliance Securities.

It may become onerous for companies maintain margins, even as commodities and other expenses which were benign in the second quarter start inching up, added Shah.

The trend seen in the motorcycle segment is in sharp contrast to cars, where manufacturers are seeing sales of entry-level models overtaking pricier ones. Take car market leader Maruti Suzuki India, for instance. The maker of the WagonR and Swift saw its average realisation in the September quarter dropped 5 per cent, as buyers downshifted to cheaper entry-level models. It was also led by the absence of diesel cars in its portfolio, which commanded a higher pricing, compared to gasoline models.

trend of a superior product mix was most pronounced for Bajaj Auto.

The Pune-based firm sold a record 340,000 Pulsars (including 125cc and 150cc) in the September quarter, in both the domestic and export markets.

Rakesh Sharma, executive direcrelatively insulated to the overall eco- tor, Bajaj Auto, said the record sales highest margins in the domestic ket, is now seeing an upturn in the improved in the recent past.



In September 2020, sales of 125cc models — that include the Hero Glamour, Splendor, Pulsar 125, Victor Star City, among others — grew by a whopping 30 per cent over the same period a year ago to 305,615 units

of record volumes for the ultra-premium brands such as KTM, Husqvarna, and Dominar. "The Pulsar franchise, along with the ultra-pre-

Among two-wheeler makers, the buffeted the company from head- motorcycle business in 15-16 quarwinds such as near collapse in threeters," said Sharma. A richer mix of wheeler volumes. It was also a quarter models helped the company return a margin of 18.2 per cent, against 16 per cent a year ago.

Two-wheeler market leader Hero MotoCorp, which has a stronghold in mium brands, helped us clock the the entry level of the motorcycle mar-

premium segment, company's officials told investors during the earnings call last week.

It's getting "very strong reviews, very strong responses" to the newly launched premium models, including the Xpulse, Xtreme 160R, and Passion Pro, said Naveen Chauhan, head of sales and aftersales at Hero-Moto Corp. It has helped the company increase its share in urban markets in the South, West, East, and the rest of the markets. Hero is looking accelerate its play in the premium segment, with the recently announced partnership with Harley-Davidson.

It's a similar story at Chennaibased TVS Motor, which, too, saw its blended realisation improve to ₹53,000 in the September quarter, from ₹59,000 a year ago, largely because of an improved model mix. The company saw marginal growth during Navratras over the past year.

K N Radhakrishnan, director and chief executive officer at the firm, said growth was led by higher sale of premium models in both urban and rural markets. "There's a higher pull for products which are a bit more premium," he said, referring to the Ntorq, Jupiter, and Apache's sale in rural India, where disposable income has

ous year. CV exports in October

2020 were 45 per cent higher

than the previous month, while

being 20 per cent higher than

October 2019. Ashok Leyland's

truck sales in October rose by 13

per cent to 3,762 units from

3,340 units in October 2019.

However, bus sales dropped by

90 per cent to 119 units from

1.230 units. This led the M&H-

CV segment of the company to

report 15 per cent fall in sales to

3,881 units in October 2020

from 4,570 units in the same

We're committed to FGD biz, says **GE Power India**

This comes amid concerns over its parent's decision to exit coal biz

New Delhi, 2 November

GE Power India sees coal-based power becoming a niche and complex space as the fuel transforms from being a base load to having about 52 per cent share in the overall electricity market by 2030. It also estimated the size of the flue gas desulphurisation (FGD) business at 143 Gw in three to five years.

This statement comes even as the company's stock has taken a beating after its parent announced on September 21 that it would exit new coal business globally. The stock plants) in India is 225 Gw, of has fallen over 50

per cent to ₹201.8 a The market for share on Monday efficiency and from ₹444.75 on emission control September 21.

Prashant Jain. \$900 million and managing director, is centred around GE Power India, told parts, repairs, Business Standard, and services of "We have accelerat- boilers, turbines, ed our market share and generators from 3 per cent to 5

We are looking at expanding ous stages of execution. this market to operations and maintenance."

The market for efficiency and emission control is worth \$900 million and is centred around parts, repairs, and services of boilers, turbines, generators. This would increase to \$3-4 billion as the firm ventures into existing assets and renewable integration.

order backlog that we will do central and state government over the next two to three years. We have this time to prepare a strategy for renewable integration," said Jain.

There are a lot of opportunities in the transformation of been finalised. operation and maintenance strategy, Jain said, adding that some suppliers might not remain because of the stress in the private sector.

space, so it would be a niche segment. "Thermal will be a niche play for managing and operating assets. It will be complex with operations and maintenance and that is where GE has technology and partnerships to enable this transition of renewable integration."

In a statement to shareholders, GEPIL said while its promoter, General Electric, has announced its intention to exit from new coal power market globally, GEPIL continues to see a demand for FGD systems in India. The total FGD market, (including captive power

which 82 Gw (₹33,000 crore) has been ordered by mostly central pubis worth around lic sector utilities and a few state utilities. GEPIL has so far been awarded 10 FGD projects, amounting to 13 Gw (representing about 15 per cent market

per cent in the last few years. share), which are now in vari-

The rest that remains to be ordered in the next 3 to 5 years is estimated at 143 GW. Of this, **GEPIL** pursue opportunities independently for around 66 Gw (₹29,000 crore), consisting of potential IPP and captive power plant customers, on the basis of its existing technology licence agreement.

The remaining potential "We have a ₹7,500-crore market of 77 Gw comprises of customers, An October 25 ICICI Securities report, however, noted that most of the orders from NTPC have been completed and 84 Gw of FGD orders have

> Some 145 Gw of orders are pending finalisation from state electricity boards and the

Two-wheeler sales zoom in October



Two-wheeler sales of most firms rose at a brisk pace in October as companies dispatched higher volumes in anticipation of a good festive season that began with Navratra. Cumulative sales of two-wheeler makers (excluding Honda Motorcycle) rose 23 per cent year-on-year.

The volumes, however, are not strictly comparable with last year's as unlike the previous year, when two key festivals — Navratra and Diwali were clubbed in a single month — this year they are staggered

Two-wheeler dealers said dispatches by manufacturers are outpacing the actual demand on the ground—ie the retail demand is much lower. "The sentiments are weak and demand is subdued," said a dealer.

FRESHTROP FRUITS LTD.

Pursuant to Regulations 29 and 47 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,

Notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of

the Company will be held on Wednesday, 11th November, 2020 to

consider and approve the Unaudited Financial Results for the

The said Notice is also available at Company's website

www.freshtrop.com and on the website of stock exchanges at

By order of the Board

Chairman & Managing Director

Ashok Motiani

SALE NOTICE UNDER IBC, 2016

Goel Agrigreen Fields Private Limited -(In Liquidation)
Liquidator: Mr. Amresh Shukla
Registered Office: Khasara No. 3, Kesla Village, Itarsi,
Distt. Hoshangabad-461111, Madhya Pradesh, INDIA
Email: cirp.goelagrigreenfields@gmail.com | Ph:+91 9425007441 (Mr. Amresh Shukla)

E-Auction

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Date and Time of E-Auction: 10th November, 2020 at 03.00 PM to 05.00 PM

(With unlimited extension of 5 minutes each)

SALE OF ASSETS AS A WHOLE & ON GOING CONCERN

Sale of Assets and Properties owned by **Goel Agrigreen Fields Private Limited** (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointed by

the Hon'ble National Company Law Tribunal, Indore Bench at Ahmedabad vide order

dated 18th August, 2020. The sale will be done by the undersigned through the e-auction

Freehold Land at Village- Kesla, Teh- Itarsi, Distt: Hoshangabad, Near Taku Forest Depo, NH 69 (Total Area 77.92 Acres)

Under Construction Factory Building at Village - Kesla, Near Taku Forest Fepo, NH 69, Teh- Itarsi, Distt: Hoshangabad, Madhya Pradesh-461111

Plant & Machinery at Village- Kesla, Near Taku Forest Fepo, NH 69, Teh- Itarsi, Distt: Hoshangabad, Madhya Pradesh-461111

Workshop at Village - Kesla, Near Taku Forest Fepo, NH 69, Teh- Itarsi, Distt: Hoshangabad, Madhya Pradesh-461111

25,66,79,102/-

2,56,67,910/-

inquiries and inspect the assets at their own expenses and satisfy thems

As a Going Concern

1. E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER

2. The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independen

3. The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online

e-auction Bid Form, Declaration & Undertaking Form, General Terms and Conditions

of online auction sale are available on website https://ncitauction.auctiontiger.net For E-Auction details, contact Mr. Praveen Kumar Thevar at 9722778828.

prayeen. thevar@auctiontiger.net/support@auctiontiger.net. Or Liquidator. Intbidders are requested to visit the abovementioned websites and submit a bid.

THERE IS" and "NON RECOURSE BASIS" through approved service provider M/S

platform https://ncltauction.auctiontiger.net

Plant and Machinery

Workshop

Mode of Sale

Place: Bhopal

Reserve Price (In Rs.)

Incremental Value (In Rs.) 1000000/-

Terms and Condition of the E-auction are as under

E-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger)

EMD Amount (In Rs.)

DIN No.: 00124470


FOR, FRESHTROP FRUITS LIMITED

quarter and half year ended 30th September, 2020.

www.bseindia.com.

Date: 02-11-2020

Place: Ahmedabad



and demand is subdued,"

Two-wheeler sales at most companies rose at a brisk pace in October, as companies dispatched higher volumes in anticipation of a good festive season.

COMPILED BY SHALLY SETH MOHILE

Two-wheeler sales at most companies rose at a brisk pace in October, as companies of spatched higher volumes in anticipation of a good festive season.

Cumulative sales of two-wheeler makers (excluding Honda)

Source: Companies

Government of Kerala Published Tenders from 26-10-2020 to 01-11-2020

Department of Electrical Inspectorate

Tender ID: 2020 CEI 393809 1 * Chief Electrical Inspector * Single Phase Relay test Kit * Closing Date: 03-Nov-2020 *

Tender ID: 2020 CEI 393815 1 * Chief Electrical Inspector * Current Transformer Testing Unit * Closing Date: 11-Nov-2020 * PAC: Rs2600000

Tender ID: 2020 CEI 393805 1 * Chief Electrical Inspector Tamper Proof Poly Carbonate Seal * Closing Date: 10-Nov-2020 * PAC: Rs1300000 Tender ID: 2020_CEI_394503_1 * Chief Electrical Inspector

Power Quality Analyzer * Closing Date: 07-Nov-2020 * PAC: ender ID: 2020 CEI 394525 1 * Chief Electrical Inspector *

Electric Fence Energizer Test Set up(Digital Oscilloscope an 4 Closing Date: 07-Nov-2020 * PAC: Rs680000 Tender ID: 2020 CEI 393812 1 * Chief Electrical Inspector

Three phase fully automatic Energy Meter Test system with in * Closing Date: 10-Nov-2020 * PAC: Rs2500000 Department of Animal Husbandry Tender ID: 2020 DAH 393259 1 * Chief Disease

nvestigation Officer * Purchase of Consumables 2020-21 * Closing Date: 04-Nov-2020 * PAC: Rs900000 Drugs Control Department

Tender ID: 2020 DCD 392561 1 * Chief Government Analyst * Supply of Laboratory Chemicals * Closing Date: 20 Nov-2020 * PAC: Rs700000

Tender ID: 2020_DCD_392866_1 * Chief Government Analyst * Supply of Laboratory Glassware and Miscellaneous temss * Closing Date: 20-Nov-2020 * PAC: Rs750000

Tender ID: 2020 DCD 392885 1 * Chief Government Analyst * Supply of Laboratory Instruments and Accessories Closing Date: 10-Nov-2020 * PAC: Rs927000 Tender ID: 2020 DCD 393683 1 * Chief Government

Analyst * Upgradation of GC and HPLC * Closing Date: 10-Nov-2020 * PAC: Rs1050000

Kerala Fire and Rescue Services

Tender ID: 2020_FRS_393745_1 * Director General * Purchase of 6900 nos of Cap * Closing Date: 20-Nov-2020 * Tender ID: 2020 FRS 393661 1 * Director General *
Purchase of 6200 nos of Metal Badge * Closing Date: 20-Nov

2020 * PAC: Rs620000 Tender ID: 2020 FRS 392980 1 * Director General * Purchase of 6750 Nos of Reflective Jackets * Closing Date: 8-Nov-2020 * PAC: Rs1181250

Tender ID: 2020_FRS_393799_1 * Director General * Purchase of 6278 nos of Walking/Jogging/PT Shoe * Closing Date: 20-Nov-2020 * PAC: Rs2511200

Tender ID: 2020_FRS_393956_1 * Director General * Purchase of Equipments * Closing Date: 23-Nov-2020 * PAC:

District Labs at Kollam and Malappuram * Closing Date: 26-Nov-2020 * PAC: Rs3700000 Tender ID: 2020_KP_393200_1 * Director * Equipment for

Tender ID: 2020 KP_393390_1 * Director * Equipment for

Biology and serology division of FSL,Tvpm * Closing Date: 26-Nov-2020 * PAC: Rs550000

Stationery Department

Tender ID: 2020 STY 389560 2 * Stationery Controller * Supply of Super Print or Maplitho paper * Closing Date: 03-Nov-2020 * PAC: Rs1020000

https://etenders.kerala.gov.infor more details

Ro.No:26-01/Oct-Nov/2020/PRD/(N)8

9 per cent to 5,033 units over month of 2019. Light commer-September 2020 (4,606 units), cial vehicle sales increased by 11 and 3 per cent over October per cent to 5,004 units from T E NARASIMHAN 2019 (4,893 units), the first mo-4,509 units.

CV sales revive on back

activity, rural demand

A recovery in economic activi- nth of growth over the previ-

of higher economic

ty and the infrastructure sec-

tor has led to an uptick in sales

in the country's commercial

vehicles (CV) market in Oct-

ober. Companies are also opti-

mistic about the festive sales.

mercial vehicle (CV) sales were

flat on October 2020 at 26,052

units compared to 25,983 in

October 2019. The figure was 12

per cent higher compared to

September 2020 (23,245 units).

mercial vehicles (MHCVs) grew

Medium and heavy com-

Tata Motors' domestic com-

CIN: L26942MH1983PLC265166 RegdOffice:A-610, Kanakia Wall Street, 6th Floor, Andheri Kurla Road, Chakala Junction, Andheri (East), Mumbai-400093 Website: www.anjanicement.com Tel No: 022-62396051 Email Id: secretarial@anjanicement.com

Anjani Portland Cement Limited


NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 (1)(a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, November 10, 2020 inter-alia to consider and approvi the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended or September 30, 2020, along with the Limited Review Report of the Statutory Auditor hereon as required under Regulation 33 of the said Regulations

The said intimation will be available on the website of the Company a www.anjanicement.com and on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com and NSE Limited at www.nseindia.com. For Anjani Portland Cement Limited

Place: Mumbai

Rohit Taparia Company Secretary and Compliance Officer (M.No: A35756)



PEARL GLOBAL INDUSTRIES LTD. (CIN: L74899DL1989PLC036849)

Industrial Area, Phase-II, New Delhi -110028 PearlGlobal E-mail: investor.pgil@pearlglobal.com Website: www.pearlglobal.com Phone: 0124-4651000

NOTICE

NOTICE, pursuant to Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 12th November, 2020 to consider, approve and take on record, inter-alia, Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the Quarter and Half year ended 30th September, 2020.

Further details are/shall be available at website of the Company at www.pearlglobal.com and that of BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at

for Pearl Global Industries Ltd.

Place: New Delhi Date: November 2, 2020

Company Secretary

W aurella *WISHFUL Delleven

TCNS CLOTHING CO. LIMITED CIN: L99999DL1997PLC090978

Regd. Office: Unit No. 112, F/F Rectangle 1, D-4, Saket District Centre, South Delhi, New Delhi-110017. Corporate Office: 119 &127, W-House, New Manglapuri, Mandi Road,

Sultanpur, Mehrauli, New Delhi-110030

Tel: 011-42193193, Email: investors@tcnsclothing.com, Website: www.wforwoman.com NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on 10th November 2020 inter-alia to consider and approve the Standalone Un-Audited Financial Results for second quarter / half year ended on 30th September, 2020.

Further, pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and the Code of Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Insiders of Unpublished Price Sensitive Information, the trading window for dealing in the securities of the Company has already closed from 1" October, 2020, will continue to be closed till 12th November 2020 (both days inclusive) for insiders and connected persons (including their dependants and immediate relatives).

The said notice is also available on the Website of the company at www.wforwoman.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

For TCNS Clothing Co. Limited

Place: New Delhi Date: 3rd November 2020

Piyush Asija Company Secretary & Compliance Officer

VALECHA ENGINEERING LIMITED

CIN: L74210MH1977PLC019535 Regd Office: "Valecha Chambers", 4th Floor, Plot No. B-6,
Andheri New Link Road, Andheri (West), Mumbai-400 053.

•E-mail:ho@valecha.in •Website:www.valechaeng.com

NOTICE

Notice is hereby given Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Thursday 12" November, 2020 to consider, inter-allia, the Unaudited Financial Results o the Company for the 2[™] quarter and half year ended 30" September, 2020. This notice is also available on the Company's website at www.valechaeng.com and also on the website of the exchange at www.bseindia.com and

Date: 30th October, 2020

Date of Pre-bid meeting

Place: Mumbai

Date: 2nd November, 2020

Vijaykumar Modi



Al Engineering Services Ltd. (A wholly owned subsidiary of Air India Ltd.)

NOTICE INVITING TENDER

Al Engineering Services Limited invites bids for following

tenders having duration of 2 years		
Tender No.	AIESL/Tender-2020/Multitask/01 dated 23-10-2020	
Tender description	Provision of Manpower Services (MT/ 2020) at Mumbai	
Approximate requirement	74	
Close Date	17-11-2020	
EMD	₹.6.71 lakh	

For further details regarding tender documents, visit our website: http://www.airindia.in

4-11-2020

balkrishna industries limited CIN NO: L99999MH1961PLC012185 Regd. Office: - B-66, Waluj MIDC, Waluj Industrial Area,

Aurangabad - 431136, Maharashtra, India. Tel No. +91 22 6666 3800 Fax: +91 22 6666 3898/99 Website: www.bkt-tires.com E-mail: shares@bkt-tires.com NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Friday, 6th November, 2020** at Company's Corporate Office: BKT House, C/15, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, inter alia, to consider and approve Unaudited standalone and consolidated financial results of the Compan for the quarter and half year ended 30th September, 2020 and to conside declaration of 2nd Interim Dividend on equity shares, if any, for the financia ear 2020-21.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 and applicable rules thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has fixed Saturday, the 14th November, 2020 as record Date fo the purpose of ascertaining the eligibility of the shareholders for paymen of 2^∞ Interim Dividend on equity shares of the Company for the financia ear 2020-21 to be declared at the Board Meeting of the Company to be held on Friday, 6th November, 2020, if any. The said 2[™] Interim Dividenc shall be credited/dispatched within 30 days from the date of declaration as per applicable provisions of Companies Act, 2013 to such Shareholder

The said notice may be accessed on the Company's website at www.bkt-tires.com and also on the Stock Exchanges website at www.bseindia.com and www.nseindia.com

For Balkrishna Industries Limited

Sd/-Vipul Shah Director & Company Secretar DIN. 05199526











Address: F-05, Jaideep Complex, 112, Zone-II, M.P. Nagar, BHOPAL- 462011

Liquidator
Goel Agrigreen Fields Private Limited (in Liquidation)
IBBI Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P00120/2017-18/10255

Email: cirp.goelagrigreenfields@gmail.com Contact No.: +91 9425007441 (Mr. Amresh Shukla























एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड

सीआईएनः L55101DL1980PLC011037 पंजीकृत कार्यालयः भीकाजी कामा प्लेस, एम. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110066 फोनः 011 66771225 / 1226, फैक्सः 011 26791033 ई-मेलः investorrelations@ahlnorth.com वेबसाइटः www.asianhotelsnorth.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धत विनियम) के विनियम 47(1)(ए) के अनुपालन में एतद द्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बृहस्पतिवार, 12 नवम्बर 2020 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में, अन्य विषयों के अतिरिक्त. 30 सितम्बर 2020 को समाप्त दुसरी तिमाही / अर्द्ध वर्ष के अनकेक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन करने हेतु आयोजित की जाएगी यह भी सूचित किया जाता है कि, सूचीबद्धता विनियम के विनियम 47(2) के अनुपालन में, उपरोक्त कथित वित्तीय परिणाम कम्पनी की उपरोक्त वेबसाइट तथा बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइट पर उपलब्ध

एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड के लिए

दिनेश कुमार जैन वाईस प्रेसिडेन्ट (कॉर्पोरेट मामलों) स्थान : नई दिल्ली एवं कम्पनी सचिव दिनांक : २ नवम्बर, २०२० स. संख्या एफसीएस -6224

MPS Infotecnics Limited CIN: L30007DL1989PLC131190

Regd. Office: 703, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi 110001 Ph. No. +91 11 43571044; Fax: +91 11 43571047 Email: info@mpsinfotec.com; Website: www.mps

Notice

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29, of the Listing Regulations 2015, meeting of the Board of Directors will be held on Wednesday, 11th November, 2020 at 4:00 p.m. at the registered office of the Company at 703, Arunachal Building 19 Barakhamba Road, New Delhi-110001, inter-alia, to consider and approve Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the Quarter and Half Year ended on September 30, 2020.

The said information is also available on the Company's website a www.mpsinfotec.com under Investors Zone and the same has been unloaded in NEAPS and BSE Listing Center and is also available on Stock Exchanges websites i.e. www.bseindia.com & www.nseindia.com

Place: New Delh Date: 02.11.2020

Garima Singh Company Secretary



जगसनपाल फर्मासिटिकल्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : टी-210 जे, शाहपुर जाट, नई दिल्ली- 110 049

दूरभाष : 011-46181100 & 46109900, फैक्स : 01126493841 वेबसाइट:www.jagsonpal.com, ई—मेल:cs@jagsonpal.com CIN: L74899DL1978PLC009181

सेबी (सूची दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 29 साथ में पठिव विनियमन 47 के अनुसरण में हम एतदद्वारा सचना प्रदान करते हैं कि कम्पनी के 30 सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक के एकीकृत अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य तथ्यों के साथ विचा एवं अनुमोदन हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 10 नवम्बर, 2020 एवं अन्य सामान मामलों पर चर्चा हेतु आयोजित करनी तय की गई है।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.jagsonpal.com एवं साथ में संबंन्धित स्टॉक एक्सचेन्जों बीएस एवं एनएसई की वेबसाइट, जहाँ पर कम्पनी के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, पर भी उपलब्ध है।

> कते जगसनपाल फर्मासिटिकल्स लिमिटेड हस्ता०/– नंदिता सिंह

> > सदस्यता संख्या: ए48520

स्थान : नई दिल्ली तिथि: 03/11/2020



पंजीकृत कार्यालयः ओ-116, पहली मंजिल, डीएलएफ शॉपिंग मॉल, अर्जुन मार्ग, डीएलएफ सिटी, फेज 1, गुरूग्राम-122002, (हरियाणा) कॉर्पोरेट कार्यात्वः प्लॉट नं थी-38, सैक्टर-32, इंस्टीटयूशनल एरिया, गुरूग्राम-122001 (हरियाणा) ईमेलः investor.relations@a2zemail.com, वेबसाइटः www.a2zgroup.co.in फोनः 0124-4517600, फैक्सः 0124-4380014 सूचना

मारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली 2015, के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसार, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही (Q2) और छमाही के लिए अनंकक्षित स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों और अन्य संबंधित मामलों पर, अन्य बातों के साथ—साथ, विचार करने, स्वीकृत, और रिकॉर्ड पर लेने हेतु कंपनी के निर्देशक मंडल की बैठक **मंगलवार, 10 नवम्बर** 2020 को गुरूग्राम में आयोजित की जाएगी।

यह सूचना कंपनी की वेबसाइट http://www.a2zgroup.co.in/investor-relations/corporate-announcements.html और स्टॉक एक्सचेज की वेबसाइट अर्थात् www.nseindia.com व www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते ए2जेड इन्क्रा इंजीनियरिंग लि हस्ता. 🖊 -

दिनांकः 02 नवम्बर, 2020

अतुल कुमार अग्रवाल अध्यक्ष व कंपनी सचिव



CIN: L99999DL1997PLC090978 पंजी. कार्या. : यूनिट नं. 112, एफ /एफ रिक्टेंगल 1, डी–4,साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली – 110017

निगमित कार्यालय : 119 व 127, डब्ल्यू—हाउस, न्यू मंगला पूरी, मंडी रोड, सुल्तान पुरी, महरौली, नई दिल्ली — 110030

Tel: 011-42193193, Email: investors@tcnsclothing.com, Website: www.wforwoman.com

सूचना

सेबी (सचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियम 47 के साथ पठित नियम 29 के अनुपालन में, एतदद्वारा सूर्चित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 30 सितंबर, 2020 को समाप्त दूसरी / छमाही के लिए स्टैंडलोन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने, अनुमोदन के साथ–साथ रिकॉर्ड में लेने के लिए 10 नवंबर, 2020 आयोजित किया जाना निर्धोरित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सेबी (प्रोबिहिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) विनियम, 2015 और कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रेग्यूलेटिंग, मॉनिटरिंग एड रिपोर्टिंग ऑफ ट्रेडिंग बाय इनसाइंडर्स ऑफ अनपब्लिशिंड प्राइज सेंसिटीव इंफीमेशन के अनपालन में कंपनी की प्रतिभूतियों में डीलिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो इनसाइडर्स और संबंधित व्यक्तियों (उनके आश्रितों और नजदीकी रिश्तेदारों सहित) के लिए 01 अक्टूबर, 2020 से बंद हैं और **12 नवम्बर, 2020 (दोनों दिन शामिल)** तर्क बंद रहेंगी।

उक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट पूवित्वउरण्वतं पर भी उपलब्ध है व वेबसाइट www.bseindia.com पर बीएसई लिमिटेड और www.nseindia.com पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड से भी प्राप्त की जा सकती है। टीसीएनएस क्लोदिंग कंपनी लिमिटेड

हस्ता. / पीयूष असीज्

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 03 नवम्बर 2020

कंपनी सचिव व अनुपालक अधिकारी



TATA कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 सीआईएन : J67190MH2008PLC187552 कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

[प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार]

जबकि अधोहरताक्षरी ने प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहर तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में टाट . कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकत प्राधिकारी होने के नाते नीचे उल्लिखित के अनुसार कर्जदारों से कथित सचन की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निग की। ऋणकर्ता द्वारा राशि के पनर्भगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से ऋणकर्ताओं तथा जनसामान्य को एतद्वारा सचन दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदर् शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पी . के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन नीचे सन्दर्भिः राशि तथा उस पर ब्याज और नीचे उल्लिखित तिथि से दण्डात्मक ब्याज, प्रभारों, लागतों आदि के लिए टाटा कैपिटल हाउरि

प्रतिभत आस्तियों को छडाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपध

ऋण खाता सं.	दायित्वधारी(यों) /विधिक उत्तराधिकारी(यों) /विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	मॉग सूचना के अनुसार राशि	कब्जा करने की तिथि
			जम ।साज
	जीआरजे डिस्ट्रीब्यूटर्स एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	18.02.2020 को रु.	28
	(कर्जदार) तथा स्टार सिटी बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड एवं		अक्टूबर,
9821972	श्री अजय कुमार गुप्ता, श्री अंकित गुप्ता, श्री आशीष गुप्ता,	₹. 26,35,47,010/-	2020
	श्री अजय सिंगल, श्री संजय सिंगल (सह-कर्जदार)		

प्रतिभत आस्तियों/अचल सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति सं. 1, आवासीय परियोजना ''रीगल कोर्ट'' नामक आवासीय ग 83, 84, 92, 142, 85, 94, 136, 137, 140, 141, 333/97, 276, ग्राम बंदिरपर, तहसील तिजारा, भिवाडी, राजस्थान, अलव गाईपास रोड, भिवाड़ी से निर्मित। बिक्रीत/अविक्रीत फ्लैटों/यूनिटों के अधिक विवरण https://bit.ly/2KytmTM में वर्णित। तिथि : 03.11.2020 ह./- अधिकत प्राधिका कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटे

श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN - L21012DL1972PLC279773 पंजी. कार्या. ४८४० /२४, प्रहलाद स्ट्रीट, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली – 110002 ई–मेल: info@skpmil.com, वेबसाइट: www.skpmil.com

टेली: 91–11–23261728 फैक्स: 91–11–23266708 **भूचना** सुबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियम 47 के साथ पठित नियम 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही व छमाही के लिए अनंकक्षित वित्तीय परिणाम का बठक 30 । सताबर, 2020 का समाप्त ।तमाहा व छमाहा क लिए अनकक्षित वित्तीय परिणामी पर विचार करने, अनुमोदन के साथ—साथ रिकॉर्ड में लेने के लिए मंगलवार, 10 नवंबर, 2020 को इसके पंजीकृत कार्यालय 4830 / 24, प्रहलाद स्ट्रीट, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली—110002 में आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.skpmil.com पर भी उपलब्ध है व स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, www.bse india.com पर बीएसई लिमिटेड से भी प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 02.11.2020

हस्ता. / — (रितिका प्रियम) कंपनी सचिव व अनुपालक अधिकारी

रेल विकास निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस आर. के. परम. नई दिल्ली. दक्षिण दिल्ली- 110066 सीआईएनः L74999DL2003GOI118633, ईमेलः investors@rvnl.org

फोन नं .: 011-26738299, फैक्स: 011-26182957 सूचना

सेबी (सूबीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के विनियम, 2015 ("सूबीकरण विनियमन") के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29, 33 के अनुसरण में एतदृद्वारा सूबना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 11 नवम्बर, 2020 को, वीडियो कॉम्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ, 30 सितम्बर, 2020 को सुमाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु कम्पनी के अ—लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (एकल एवं समेकित) पर विचार करने, अनुमोदन करने, तथा उसे रिकॉर्ड पर लेने की कार्रवाई की जाएगी।

ंपदनामित व्यक्तियों और उनके निकट सम्बन्धियों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन तथा प्रतिवेदन के लिए आरवीएनएल आचार संहिता के अनुसरण में ट्रेडिंग विन्डो बंद रहने की अवधि 01 जुलाई, 2020 से आरंम हो चुकी है तथा 11 नवम्बर, 2020 को वित्तीय परिणाम सार्वजनिक किए जाने के 48 घंटे बाद समाप्त यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.rvnl.org तथा स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट

www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। कते रेल विकास निगम लिमिटेड स्थान : नई दिल्ली हस्ता. कल्पना दुबे कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 02.11.2020

reli∧nce

रिलाइंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड रिलाइंस सेन्टर, 6वां तल, नॉर्थ विंग, ऑफ. वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे. सांताक्रज (ईस्ट).

Asset Reconstruction मुंबई-40005 कब्जा सूचना

[(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)] जबिक मेसर्स रिलाइंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आरएआरसी), एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत) रेलीगेयर हाऊसिंग डवलेपमेंट फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एसाइनी कंपनी, के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पतित धारा 13(12) के तहत पदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सचना उल्लिखित राशि **रु. 15,29,465.08/—** दिनांक **20.12.2017** से ब्याज सहित उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए **श्री ललित अर्जुन पुत्र अर्जुन और श्रीमती योगिता** हरप्रकाश पत्नी ललित अर्जुन (कर्जदार और सह-कर्जदार) सभी निवासी:- प्लॉट नं. जी 96, खसरा नं. 308, राम पार्क एक्स. हदबस्त ग्राम, हकीकतपुर उर्फ खुदाबास, परगना, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद-201102 को मांग सूचना दिनांकित 20.12.2017 जारी की थी।

कर्जदार द्वारा राशि अदा न कर पाने पर कर्जदार और जन सामान्य को एतद्द्वारा सूचित किया जात है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति क 30 अक्टबर, 2020 को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और सर्व जन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन राशि **रु. 15,29,465.08/–** और 20.12.2017 से इस पर ब्याज व अन्य प्रभारों के लिए "आरएआरसी" के प्रभार के अधीन होगा। प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को उपलब्ध समय में मुक्त कराने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप–धार के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकर्षित किया जाता है, यदि बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय "आरएआरसी" की बकाया राशि को सभी लागतों, प्रभारों और वहन व्यये के साथ चकता कर दिया जाता है तो प्रत्याभृत परिसंपत्ति "आरएआरसी" द्वारा बिक्री या हस्तांतरित नहीं की जायेगी और प्रत्याभृत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री के लिए "आरएआरसी" द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

संपत्ति की अनुसूची:-राम पार्क एक्स. हदबस्त ग्राम, हकीकतपुर उर्फ खुदाबास, परगना, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद-201102 स्थित प्लॉट नं. जी 96, खसरा नं. 308 (कुल माप एरिया लगभग 50 वर्ग गज) के समस्त भाग व खंड। प्राधिकृत अधिका

स्थानः गाजियाबाद दिनांकः 30.10.2020 मेसर्स रिलाइंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड



METROPOLITAN STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD. 4th Floor, Vibgyor Towers, Plot No.C - 62, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex Bandra East, Mumbai - 400098. CIN - U65999MH2008PLC185856

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that M/s. Crimson Financial Services Pvt. Ltd. the member of Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. ("Exchange") having registered office at Crimson Square, CSC BA Block (Opp BA- 14), Mangolpuri Industrial Area Phase-2, New Delhi - 110034 Delhi and SEBI Registration No. INZ000049536 have applied for surrender of their Trading Membership in Currency Derivatives, Equity Cash and Equity Derivatives Segments.

Any client/ constituent/member/investor having any claim / dispute /grievance with/against M/s. Crimson Financial Services Pvt. Ltd, arising out of trades executed in Currency Derivatives, Equity Cash and Equity Derivatives Segments of the Exchange are advised to furnish details of his/their claim in writing to the Arbitration & Investor Grievance Department of the Exchange at the Registered Office address indicated above, within 60 days from the date of this notification; enclosing therewith all supporting documents. No such claims / dispute / grievances filed beyond the said period will be entertained by the Exchange. The complaints filed against the above trading member will be dealt with in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange/Metropolitan Clearing Corporation of India Ltd.

The complaint form can be downloaded from www.msei.in>Investors> ComplaintFormat or maybe obtained from the Exchange office at Mumbai and also at the Regional Offices.

For Metropolitan Stock Exchange of India Ltd.

Place: Mumbai, Date: 03/11/2020

Authorised Signatory

त्राद्याधार देखें नियम 8(1) कब्चा सचना

(अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत भधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड त्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट, [एक्ट, 2002 (2002) का 54] के अंतर्गत और नियम **3** के साथ गरा 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढते हुए प्राप्त अधिकारों nा उपयोग करके कर्जदार **बिशन सिंह सिंघल, उमा सिंघल और आनंद सिंघल** को 10.05.2019 की सुचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HLAPDCP00161040 ("कर्ज खाता नं. 1 के लिए") दे.09.05.2019 के अनुसार की राशि रू.4,71,81,438/- (रुपए चार करोड़ इकहत्तर लाख इक्यासी हजार चार सौ अड़तीस मात्र), कर्ज खाता नं. HLAPDCP00162213 ("कर्ज खाता नं. 2 के लिए") दे.09.05.2019 के अनुसार की राशि रू.1,35,97,637/- (रुपए <mark>एक करोड़ पैंतीस लाख सतानवे</mark> हजार छ सौ सैंतीस मात्र) कुल राशि रू.6,07,79,075/- (रुपए छ करोड़ सात लाख उनासी हजार <mark>ाचहत्तर मात्र)</mark> और उस पर ब्याज ("कर्ज खाता नं. 1 और 2 के लिए")उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख र पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

।नराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 30.10.2020 को संपत्ति पर **आधिपत्य कर** लिया है। विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए . . ।। ।।| गावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा दि.09.05.2019 के अनुसार रू.4,71,81,438 रुपए चार करोड़ इकहत्तर लाख इक्यासी हजार चार सौ अड़तीस मात्र) . ("कर्ज खाता नं. 1 के लए") दि.09.05.2019 के अनुसार की राशि रू.1.35.97.637/- (रूपए एक करोड़ पैंतीस लाख स-तानवे हजार छ सौ सैंतीस मात्र) ("कर्ज खाता नं. 2 के लिए"), कल राशि रू.6.07.79.075/- (रुपए छ करोड़ सात लाख उनासी हजार पचहत्तर मात्र) और उस पर ब्याज (" कर्ज खाता नं. 1 और 2 के लिए") के साथ इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा.

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपति / संपतियो को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के सभी भाग और खंड प्लॉट नं. बी-52(प्लॉट नं.52, ब्लॉक-बी) पहली और दुसरी मंजिल पर निर्मित, एरिया मापित 273.5 स्के.यार्डस खसरा नं. 5/24/2 एमआइएन में से, ''क्रिश्ना पार्क'' से पहचाने जाने वाली फ्री होल्ड मंजुर कॉलनी में स्थित, पोसंगी पुर गाँव के रेवेन्यु एस्टेट और एरिया में, नजफगढ़ रोड पर, नर्ड दिल्ली-110018

उक्त संपत्ति निम्ननसार परिबद्ध है

पूर्वमें : प्लॉट नं.51 उत्तर में : सर्विस लेन 15 फीट चौड़ी

पश्चिम में : प्लॉट नं.53 त्रिशामों ∙ गोट

दिनांक :30.10.2020 स्थान : नई दिल्ली

पाधिकत अधिकारी

मही/

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

F COSMO FILMS

COSMO FILMS LIMITED

Regd. Off: 1008, DLF Tower-A, Jasola District Centre, New Delhi- 110025 CIN: L92114DL1976PLC008355 Tel: 011-49494949 Fax: 011-49494950 mail: investor.relations@cosmofilms.com, Website: www.cosmofilms.com NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

	older thereof/ claimant has applied to company for issue of Duplicate Share Certificate					
Sr. No.		Name of Claimant	Certificate No.	Distinctive Nos.	No. of Ed Shares	
1.	Nalinikumari Thakhtasinh Jhala N368	Nalinikumari Thakhtasinh Jhala	108219-10822	7732907-7732980	74	

Notice is hereby given that the following original Share Certificates of Cosmo Films Ltd

Any person(s) who has/ have any claim(s) in respect of such share certificates should lodge such claim(s) in writing with the registrars and transfer agent M/s. Alankit Assignments Ltd., 4E/2, Alankit House, Jhandewalan Extn., New Delhi 110055, Tel: 011-42541234, within 15 days of Publication of this notice after which no claims will be the registrars will proceed for issuing duplicate certificates.

COSMO FILMS LTD

Jyoti Dixit Company Secretary Dated: 2nd November, 2020



पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(सीआईएन: L74899DL1989PLC036849) पंजीकृत कार्यालयः ए-3, कम्युनिटी सेन्टर, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-॥, नई दिल्ली—110028 ई-मेलः investor.pgil@pearlglobal.com वेबसाइटः www.pearlglobal.com फोनः 0124-4651000

सूचना

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, 2015 की नियमावली 29 एवं 47 के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बृहस्पतिवार 12 नवम्बर, 2020 को अन्य बातों के अतिरिक्त, 30 सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध वर्ष के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों (एकल एवं समेकित) के अनुमोदन एवं उन्हें अभिलेख में प्राप्त करने हेतू आयोजित की जायेगी।

विस्तृत जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.pearlglobal.com एवं बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है / होगी।

कृते पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 2 नवम्बर, 2020 कम्पनी सचिव

KWALITY LIMITED

Regd. Office: KDIL House, F-82, Shivaji Place, Rajouri Garden, New Delhi-110027 CIN: L74899DL1992PLC255519 Phone: +91 11 47006500 (100 Lines), Fax No.: +91 11 25191800 Website: www.kwality.com, E-mail: cs@kdil.in

NOTICE FOR 28[™] ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD OVER VIDEO CONFERENCE, REMOTE E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE Notice is hereby given that,

- The 28th Annual General Meeting (hereinafter called as "AGM") of the members of the Company will be held on Thursday, December 24, 2020 at 11.30 A.M. (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance to General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13. 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Circular No. SEBI/HO/ CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') to transact the businesses as set out in the AGM notice.
- Electronic copies of the Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year 2020 will be sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same wil also be available on the website of the Company i.e. www.kwality.com and on the website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) i.e www.evotingindia.com. Members holding shares in dema mode, who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with their respective depository participants, and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with the Company's RTA M/s Beetal Financial & Computer Services Private Limited at beetalrta@gmail.com. The requirement of sending the physical copy of Notice and Annual report has been dispensed with vide MCA & SEB
- The Company is providing facility to its members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off-date December 17, 2020 for casting their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) (remote e-voting).

All members are hereby informed that:

- The business as set forth in the Notice of the 28th AGM may be
- transacted through voting by electronic means; The remote e-voting shall commence on Monday, December 21 2020 (10:00 A.M. IST) and ends on Wednesday, December 23, 2020 (5:00 P.M. IST).
- The cut- off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is December 17, 2020:
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e December 17, 2020 should follow the same procedure for e-voting as mentioned in

Members may note that: a) the remote e-voting module shall be

- disabled by CDSL beyond 5.00 p.m. IST on December 23, 2020 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) Facility for e-voting shall also be made available at the AGM; c) the members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to casi their vote again; and d) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut off date i.e. December 17, 2020 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.
- In case of any queries/grievances relating to voting by electronic means, the members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543).
- The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, December 18, 2020 to Thursday December 24, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the 28

For Kwality Limited (a company under CIRP vide NCLT order)

Date: 02/11/2020 Place: New Delhi Pradeep K. Srivastava Company Secretary

(Kwality Limited is under Corporate Insolvency Resolution Process of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Its affairs, business and assets are being managed by the Resolution Professional, Mr. Shailendra Ajmera appointed by the National Company Law Tribunal by order dated 11th Decembe 2018 and continued as Resolution Professional by the Committee of Creditors in its meeting held on 11th January, 2019 under the provisions of the Code.)

SOM DISTILLERIES & BREWERIES LTD

Registered Office: I-A, Zee Plaza, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave, Kamal Cinema Roa New Delhi - 110029 Phone: +91-11-26169909, 26169712 Fax: +91-11-26195897 Corporate Office: SOM House, 23, Zone II, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.)-462011

Phone: +91-755-4278827, 4271271 Fax: +91-755-2557470 Email: compliance@somindia.com Website: www.somindia.com CIN: L74899DL1993PLC052787 (BSE: 507514, NSE: SDBL)

NOTICE

Pursuant to Regulation 29, Regulation 33 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations an Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with applicable provisions of th Companies Act, 2013, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 10th day of November, 2020 at the Corporate Office o the Company at 23, Zone II, M.P. Nagar Bhopal, Madhya Pradesh – 462011 inter- alia to consider and approve the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and half year ended 30th September, 2020.

n compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the "Trading Window" for dealing in Equity Shares of the Company was closed from the opening of business hours on October 1, 2020 and shall remain closed till the end of business hours or Thursday, 12th day of November, 2020, i.e. 48 hours after declaration of Financial Results o

Pursuant to Regulation 46 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, the investors may visit website of the company www.somindia.com and stock exchanges website www.bseindia.com and www.nseindia.com for further details. By Order of the Board

For Som Distilleries and Breweries Limited Place: Bhopal Date : 02.11.2020 Nakul Kam Sethi DIN: 06512548, Director



[नियम 8(6) के प्रावधान] अचल सम्पत्तियों विक्रय हेतु बिक्री सूचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, २००२ के नियम ८(६) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के

तहत अचल परिसम्पत्तियों की विक्रय हेतु बिक्री सूचना त़द्द्वारा सर्व सामान्य और विशेष रूप से कर्जदार(ओं) व जमानती(ओं) को सूचित किय जातो है कि प्रत्याभुत ऋणदाता को बंधक/प्रभारित नीचे उल्लेखित अचल सम्पत्ति जिसक केन फिन होम्स लिमिटेड रेवाडी शाखा के पाधिकत अधिकारी दारा भौतिक कब्जा लिया गय है, केन फिन होम्स लिमिटेड रेवाड़ी शाखा को **श्रीमती मीना पांचाल पत्नी श्री बिरेन्दर सिंह** और श्री बिरेन्दर सिंह पुत्र श्री प्रकाश सिंह (कर्जादारों) और श्री सुमित सेनी पुत्र श्री राजेन्द्र सेनी (जमानती) से दिनांक 12.06.2019 तक देय रु. 15,63,354/— (रुपये पंद्राह लाख तिरसेट हजार तीन सौ चौवन मात्र) की वसूली के लिए ''जो है जैसी है'' ''जहाँ है जैसी **है''** और **''वह जो भी है''** आधार पर साथ में भविष्य के ब्याज और अन्य प्रभार सहित दिनांक

मात्र) और धरोहर राशि जमा रु. 1.50.000/—(रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) होगी।

आवासीय सम्पत्ति माप 53 वर्ग गज और उस पर निर्माण स्थित खेवत नं. 3345/3126 का भाग मिन खाता सं. 3805 मुशतील नं. 161, किला नं. 28{26–6} वार्ड नं. 04, माता गेट और हनुमान मंदिर के पास जय हिंद कॉलोनी, झझर हरियाणा पिन नं. 124507

बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया कम्पनी की अधिकारिक वेबसाइट (www.canfinhomes.com) देखें। कृपया निम्न लिंक https:/www.canfinhomes com/SearchAuction.aspx देखें।

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') की घारा 13(12) के सहपठित प्रतिभूतिकरण हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के तहत

अधाहरताक्षर (श्रव्यक्षर (स्पाट एक्ट्रपूरान कपना ।तानारङ (ह्यास) के का आवकृत आवकार हान के नाते, उसे वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिनृतिकरण और पुनार्निमाण और प्रतिनृति हित प्रवर्तन अधिनेयम, 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13(12) के सहपवित प्रतिमृत्तिकरण हित (प्रवर्तन) नियमावती, 2002 के (तियम 3) के तहत, अधिकृत अधिकारी ने घारा 13(2) के तहत स्थिगंड नोटिस जारी कर निम्मतिक्षित कर्जवाद (एतें) से उन्हें संबंधित जारी किये गये नोटिसों में उन्हिलखित वर्च याशि, जिसका वर्णन संबंधित जारी किये गये हिमांड नोटिस जिन्हें नीचे इंगित किया गया है, उ का कथित नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने की मांग की गई है।

प्रपोत्त के संबंध में, ईएआरसी का भुगतान करने के लिए कर्जवार(रों)को एतदद्वारा फिर नोटिस दिया जाता है के वे **इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर**, कथित डिमांड नोटिस में विस्तृत रूप में नीबे उ**ल्लिखित** राशियों और उस पर आगे के व्याज सहित, जैसा कि डिमांड नोटिस में विस्तृत रूप में दिया गया है, निम्नलिखित तिथि पर भुगतान और / या वसूली प्राप्ति, जो समझौते के सहपठित अन्य दस्तावेजों / लेखों, यदि कोई हो, जिसे कर्जदार(रों) द्वारा निष्पादित किया गया था। ऋण के उचित पुनर्मृगतान के लिए प्रतिमूति के रूप

क्र मा क	कजदार(रा)/ सह- कजदार(रा) क नाम/ ऋण खाता संख्या और कोड	डिमांड नाटिस की तिथि और राशि	समनुदेशक के विवरण
1	श्री सुरेश कुमार (कर्जदार) / श्रीमती शीला देवी (सह-कर्जदार) / मैसर्स शिव भट्टा कंपनी अपने प्रोप्राइ (सह-कर्जदार) के माध्यम से ऋण खाता क्रमांक DDK16166N	29 अक्टूबर 2020 और फ. 29,99,423.66/— (रु. उनतीस लाख निन्यानवें हजार चार सौ तेईस और छब्बीस पैसे केवल)	ईएआरसी ट्रस्ट एससी–353 और इंडसइंड बैंक लिमिटेड
आर्याधन संगत्नि का विवसा (अन्न संगत्नि) प्रकान संग २०२० जो खेतर संगर २४० जाता संगर २२२ २२२			

रखी गई आवासीय **संपत्ति** / फ्रीहोल्ड संपत्ति का सारा हिस्सा और उसमें सब कुछ समिनितत है, जो मौजा गढ़ी ब्राहमण, आबादी मयूर विहार, सोनीपत, नगर पालिका सोनीपत के भीतर स्थित है, जिसे वार्ड नंबर 31, गली नंबर 8, मयूर विहार कॉलोनी, जिला सोनीपत 131001, हरियाणा के नाम से जाना जाता है। बिक्री विलेख / इस्तांतरण विलेख / वसीका नंबर / इस्तांतरण विलेख / उपहार विलेख-640 बिकी विलेख तिथि -माह-वर्ष): 20-04-2007, उप पंजीयक कार्यालय स्थलः सोनीपत, **संपत्ति की चौहदीः** पूर्व में: जगमित

2	मैसर्स जवाहर एंटरप्राइजेज़ इसके साझेदार और इसके प्रोप्राइटर श्री अजीत सिंह (कर्जदार) / श्री अजीत सिंह (सह-कर्जदार) / श्रीमती नीरजा सिंह उर्फ नीरजा सिंह (सह-कर्जदार) / श्री सूर्य प्रताप सिंह (सह-कर्जदार) के माध्यम से ऋण खाता क्रमांकः RRA01163N	और रू. 2,20,18,658.99/- (रु. दो करोड़ बीस लाख अतारह हजार छ: सौ	ईएआरसी ट्रस्ट एससी–353 और इंडसइंड बैंक लिमिटेड
आ	रक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति) संपत्ति (1):	31 कनाल 13 मरला की बंध	ाक रखी गई

6 17 6 11		
मैसर्स दुर्गा ट्रेवल्स अपने प्रोपराइटर श्री पंकज शर्मा (कर्जवार) /श्री पंकज शर्मा ("सह-कर्जवार")/ मैसर्स अजय ट्रेवल्स अपने प्रोप्राइटर श्री अजय शर्मा ("सह-कर्जदार")/ श्री मती उर्मिला शर्मा ("सह-कर्जदार")/ श्री ओम प्रकाश शर्मा ("सह-कर्जदार") के माध्यम सं क्षण खाता नंबर: DBC00500N	(एक करोड़ चौरासी लाख उन्नासी हजार दो सौ	ईएआरसी ट्रस्ट एससी–353 और इंडसइंड बैंक लिमिटेड

आरोबत संपत्ति का पावरण (अवत संपत्ति): त्याट नवर 21, व्यांक एक पर उवारखत वयक संपत्ति / आवासीय संपत्ति का सारा मांग और उसमें साम्मितित सब कुछ (जिसके मुखंड का परिमाप 18000 वर्ग मीटर है. इसके साथ इसमें निर्मित संरचना, जिसका कुल कवर्ड क्षेत्रफल 257.45 वर्ग मीटर है। वह सेक्टर—42 नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर (इ.प्र.), 201303 में स्थित है। कथित प्लॉट नोएडा प्राधिकरण के माध्यम से पैराडाइज व्यु को—ऑपरेटिव (डाउस बिविंड्य) सोसाइटी लिमिटेड),(एतसद्वार पंपत्ति के रूप में संदर्भित है) के माध्यम से विधिवत आवंटित की गुई थी। बिक्री विलेख / इस्तांतरण विलेख / वासिका नंबर / इस्तांतरण विलेख:—6440 बिकी विलेख तिथि (तिथि—माइ—वर्ष):- 8 / 7 / 2003 सप—पंजीयक कार्यालय का स्थान:-नोएडा **संपत्ति की**

जॉट नंबर एफ—22 से घिरी हैं। यदि कथित कर्जदार ईएआरसी को उपरोक्तानुसार देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, ईएआरसी उपरोक्त आरक्षित संपत्ति के खिलाफ अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमानुसार कथित कर्जदार(रों) पर लागतों और परिणामें के पूर्ण जोखिमों के खिलाफ कार्यवाही करेगी। कर्जदारों को अधिनियम के तहत एएआरसी की पूर्व लिखित सहमति के बिना, किसी भी तरीके से उपरोक्त संपत्ति की हस्तांतरण को प्रविधित किस विक्री या पृष्ट पर या अन्यथा है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंधन या सहयोग करता है, उसे अधिनियम में प्रदान किये अनुसार कारावास और / या दंड का

अधिकृत अधिकारी एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के लिए

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8(6) के प्रावधानों के तहत]

प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सुचना एतद्वारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदार(रॉ) तथा जमानती(यों) को सुचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज बैंक के पास बंधक,प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों, जिस पर इण्डियन

बैंक के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कब्जा कर लिया गया है, की बिक्री निम्नलिखित विवरणों के अनुसार ''जहाँ है वहाँ है'' 'जो है यही है'' 'जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर की जायेगी। कब्जे आरक्षित मूल्य ईि-नीलामी की तिथि कर्जदारों का नाम इण्डियन ओवरसीज बैंक अचल सम्पत्ति का विवरण जमानतियों का नाम जात ऋण भार यदि कोई हो जमा धरोहर राशि ईएमडी जमा करने प्रकार (रु.) 30.11.2018 तक विल्ट-अप सम्पूर्ण बेसमेंट फ्लोर से निर्मित सम्पति का सम्पूर्ण भाग, सम्पत्ति सं. वी-IV/77, दयानन्द भौतिक रू. 4,68,49,308/-एवं भावी कॉलीनी, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024 में निर्मित, श्री रिषभ जैन पुत्र सुभाष चन्द जैन के नाम मैसर्स सिद्धार्थ बायोटेक प्रा.लि रु. 28.74 लाख न्युनतम संविदा वृद्धि ब्याज तथा लागत पर (सम्पत्ति बैंक के भौतिक कब्जे में है। आरक्षित मूल्य संविदा गुणक अर्थात 1. श्री ऋषभ कुमार 16.11.2020 ह. 20,000/-) है। 2. श्री सतीश कुमार को ०५ ०० बजे अप

● जहाँ प्रयोज्य है, वहाँ आरक्षित मूल्य आयकर अधिनियम की धारा 194(IA) के तहत 0.75% कर सहित है। ●बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया इण्डियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट www.iob.in [https://www.iob.in/TenderDetails.aspx?Tendertype=E_Auction] अथवा https://ibapi.in पर प्रावधानित लिंक देखें।

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 02.11.2020

अधिकृत प्राधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

08.12.2020 को बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य **रु.** 15,00,000/**— (रुपये पंद्राह ला**ख

सम्पत्ति की अनुसूची

सीमांकन: पूर्व:बलवनका मकान, पश्चिम : खाली प्लाट दक्षिण: 18 फुट चौड़ी सड़क उत्तर:अन्य सम्पत्ति

दिनांक : 02/11/2020 स्थान : रेवाडी

Edelweiss एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

Asset Reconstruction CIN - U67100MH2007PLC174759

पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई - 400098.

रिटेल केन्द्रीय कार्यालय , प्रथम तल, एडलवाइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, मुम्बई यूनिवर्सिटी के पास, कलीना, मुम्बई 400098
शाखा कार्यालय : 606, 6टीं मंजिल, 26ए, आकाश रीप बिल्डिंग, बाराखमा रोड, कर्नाट प्लेस, नई विल्ली - 110001

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी

केन फिन होम्स लि.

डिमांड नोटिस

ग्रोहस्ताक्षरी **"एडलवेइस एस्सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड" ("EARC")** का अधिकृत अधिकारी हो

निलिखित संपत्ति क्रमशः कथित कर्जदार(रों) द्वारा ईएआरसी के पास बँधक रखी गई हैं।

1	श्री सुरेश कुमार (कर्जदार) / श्रीमती शीला देवी (सह-कर्जदार) / मैसर्स शिव मट्टा कंपनी अपने प्रोप्राइ (सह-कर्जदार) के माध्यम से ऋण खाता क्रमांक DDK16166N	₹5. 29.99.423.66 / -	ईएआरसी ट्रस्ट एससी–353 औ इंडसइंड बैंक लिमिटेड
आरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति) मकान नंबर 2030, जो खेवट नंबर 218, खाता नंबर 272, 273 कित्ते 8 रकबा 50 कनाल 5 मरले 5 / 1005 भाग, अर्थात 5 मरले का क्षेत्रः 5 मरले / / 160 वर्ग गज की बंधव			

ep.	क प्लाट, पश्चिम मः रामानवास का प्लाट, उत्तर मः 20 फुट चाड़ा सड़क; दक्षण मः आम प्रकाश का मूम ।			
2	मैसर्स जवाहर एंटरप्राइजेज़ इसके साझेदार और इसके प्रोप्राइटर श्री अजीत सिंह (कर्जदार) / श्री अजीत सिंह (सह-कर्जदार) / श्रीमती नीरजा सिंह उर्फ नीरजा सिंह (सह-कर्जदार) / श्री सूर्य प्रताप सिंह (सह-कर्जदार) के	और फ. 2,20,18,658.99/- (रु. दो करोड़ बीस लाख	ईएआरसी एससी–3: इंडस: बैंक लि	

संपति / मूमि का सारा हिस्सा और उसमें सब कुछ सम्मिलित हैं जो खाता नंबर 184 / 228, संशोधित नंबर 27, किला नंबर 10 (8–0), 11(8–0), 20 / 2(5–7), संशोधित नंबर 28, किला नंबर 15(4–16), 16(5–10), राजस्व संपदा ग्राम कारवां में उप–तहसील होडल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा 121106. बिक्री विलेख / हस्तांतरण अपने भारत पर विकास १ उपनिहास को होड़ा, शिला अरुपाबाद, विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास वि विलेख / वर्षोका नंबर / हरतांतरण विलेख / उपहार विलेख:-1357, विकी विलेख तिथि (तिथि-माहः-वर्ष); 30–11–1992, उप पंजीयक कार्यालय स्थानः पलवल **संपत्ति की चौहरीः** पूर्व में: लागू नहीं; पश्चिम में: लागू नहीं; उत्तर में: लागू नहीं; दक्षिण में: लागू नहीं। **संपत्ति (2)**: 2 कनाल 13 मरला परिमाप की संपत्ति जिसे खात रहें , अर्थ से साहित नंबर 22 नंबर, किला नंबर 20/1 (2-13), कुल मूमि का परिमाण 34 कनाल 6 मरला राजस्य सम्पदा, ग्राम कारवां उप—तहसील होडल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा 121106. बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख/वसीका नंबर/हस्तांतरण विलेख/उपहार विलेख:—1350, बिक्री विलेख तिथि तिथि—माह—वर्ष): 30—11—1992, उप पंजीयक कार्यालय स्थानः पलवल **संपत्ति की चौहरीः** पूर्व में: लागू नहीं; रश्चिम में: लागू नहीं; उत्तर में: लागू नहीं; दक्षिण में: लागू नहीं।

मैससं दुगो ट्रेंवल्स अपने प्रोपराइटर श्री पकज शमा (कर्जदार) /श्री पंकज शर्मा ('सह–कर्जदार'')/ मैससं अजय ट्रेंवल्स अपने प्रोप्राइटर श्री अजय शर्मा ('सह–कर्जदार'')/ श्री मती चिर्मिला शर्मा ('सह–कर्जदार'')/ श्री ओम प्रकाश शर्मा (सह–कर्जदार'') के माध्यम से ऋण खाता नंबर: DBC00500N	तक रू. 1,84,79,279.43 / — (एक करोड़ चौरासी लाख उन्नासी हजार दो सौ	ईएआरसी ट्रस्ट एससी–353 और इंडसइंड बैंक लिमिटेड	
रक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति): प्लॉट नंबर 21, ब्लॉक "एफ" पर अवस्थित बंधक संपत्ति			

–20, पश्चिम में: 9 मीटर चौड़ी सड़क; उत्तर में: 12 मीटर चौड़ी सड़क; दक्षिण में:

इण्डियन ओवरसीज बैंक इण्डियन ओवरसीज बैंक, आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, रचना बिल्डिंग, 3सरा तल, 2, राजेन्द्रा प्लेस, दिल्ली-110008

दूरभाष : 011-25758124 ई-मेल : iob1997@iob.in प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा

रु. 28.94 लाख सुश्री शशी झमतन 4. संश्री कविता झमतनी

श्री जितेन्द्र कुमार 700902602 🗖 इसे उपर्यवत तिथि पर ई-नीलामी धारिता के विषय में कथित ऋण के प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/नियम 9(1) के तहत कथित ऋणों के कर्जदार/रो/बंधककर्ताओं तथा जमानतियों के लिए सचना मानी जाए ईएमडी जमा करने की प्रारम्भिक तिथि 03.11.2020 है।